



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक / WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, 11 नवम्बर—नवम्बर 17, 2006 (कार्तिक 20, 1928)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11—NOVEMBER 17, 2006 (KARTIKA 20, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

सं. ए-19017/8/2006-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मई, 2006 के का. ज्ञा. सं. 05/08/2006 सी एस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्री प्रेमकुमारन वी. के. को संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 29.09.2006 (अपराह्न) से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

(i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने

अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 'क' एवं 'ख' (विलयित)(निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. ए-19014/14/2006-प्रशा.-1.--राष्ट्रपति, सं. लो. से. आ. में श्री नूरुद्दीन अंसारी, भारतीय रेलवे, कार्मिक सेवा (93) को रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में दिनांक 5 अक्टूबर 2006 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी

आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 09 अक्टूबर 2006

सं. ए-19014/13/06-प्रशा.1--राष्ट्रपति, के. स. से. के श्री रिछपाल (जन्म तिथि 10.10.1949) को 29 सितम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:--

(i) तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या के. सचि. से. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 सितम्बर 2006 के आदेश सं. 04/02/2006 सी एस-1 (पी.टी.) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/9/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, के. स. से. के श्री ए. के. सिंह (जन्म तिथि 05.07.1962) वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत को 20 सितम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:--

(i) तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या के. सचि. से. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकेगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 सितम्बर 2006 के आदेश सं. 04/02/2006 सी एस-1 (पी.टी.) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 12 अक्टूबर 2006

सं. ए-19014/4/2003-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री मनोज पांडेय, भा. रा. से. (आयकर: 92), जो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के साथ अनिवार्य प्रतिक्षा पर हैं, को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित किए जाने पर दिनांक 12.10.2006 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और निदेश दिया जाता है कि नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को रिपोर्ट करें।

3. यह स्थापना अधिकारी का कार्यालय, का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 09.10.2006 के का. ज्ञा. सं. 18/14/2006-स्था. अधि. (एम. एम.-I) के अनुसरण से जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 20 अक्टूबर 2006

सं. ए-19014/16/2006-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के आदेश सं. 05/08/2006 सी एस-1 (डेस्क) (पी. टी.-III) के अनुसरण में राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के के. सचि. से. नियमित अनुभाग अधिकारी श्री बासब सेनगुप्ता (जन्म तिथि 01.07.1962) (सी. एस. एल. सं. 5429) को 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर के. सचि. से. के ग्रेड-I में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:--

(i) तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-110023, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

सं. 2/1/06-प्रशासन.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री अशोक कुमार (आई.आर.पी.एस.: 92) को आयोग में उप सचिव के स्तर पर विभागीय जांच आयुक्त के पद पर, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में दिनांक 29.09.2006 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

## गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

सं. पी सात-4/2006-कार्मिक-3.--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, के. रि. पु. बल, भुवनेश्वर के श्री सी. एम. देवासिया (इरला संख्या-5236) ने प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का पदभार दिनांक 30.09.2006 (अपराह) को त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अक्टूबर 2006

सं. 3/11/2002-प्रशा.-I--श्री एल. रवि कुमार, आई.पी.एस. (उ. प्र. 95), प्रधानाचार्य, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद की प्रतिनियुक्ति अवधि 19.09.2006 (अपराह) से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा बढ़ाई जाती है।

2. यह गृह मंत्रालय के दिनांक 20 अक्टूबर, 2006 के फैक्स संदेश संख्या आई-21015/18/2006-आई.पी.एस.-IV के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. ई-16015/(2)/2/2003/कार्मिक-1/67.--राष्ट्रपति, श्री एस पी सक्सेना, उप कमांडेंट को नियमित पदोन्नति पर केओसुब में कमांडेंट के पद पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वह केओसुब इकाई, एचटीपीपी कासिमपुर में तैनात है, जहां उन्होंने दिनांक 23.09.2006 (पूर्वाह) से कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

नोट:--उपरोक्त पदोन्नति श्री एन के भट्टनागर द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कोर्ट केस सी डब्ल्यू पी संख्या 954/2006 एवं सी एम 852/2006 के निर्णय के अधीन होगी।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
	सर्वश्री		
1.	एस एस चौहान	ओएनजीसी नाजीरा	19.08.2006
2.	टी उँराव	आरएसपी राउरकेला	21.09.2006
3.	एस श्रीनिवासन	समूह मुख्यालय, चैन्नई	18.08.2006
4.	के सुब्रह्मण्यम	बीसीसीएल धनबाद	29.08.2006
5.	वी विद्याधरण	निशा हैदराबाद	25.09.2006
6.	एम एम नंदी	वीपीटी विशाखापटनम	18.08.2006

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. बीएनपी/सी/44/98-1.--श्रीमती पद्मा सोलंकी, अनुभागीय अधिकारी (लेखा) को लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 10.10.2006 से 31.08.2007 तक या श्री आर. के. रावल, लेखा अधिकारी द्वारा कर्तव्य ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदोन्नति किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

सं. बीएनपी/सी/44/98-1.--श्री के. एल. गोर्गा, उप कार्य अभियन्ता श्रेणी-1 (वातानुकूलन), को सहायक अभियन्ता (वातानुकूलन) के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 17.10.2006 से 06.02.2007 तक या श्री पी. एस. उच्छाना, वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी द्वारा कर्तव्य ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदोन्नति किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. प्रशा-1/का.आ.सं.-183.--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों श्री पंकज कुमार तथा

सं. ई-16015/(2)/2/2003/कार्मिक-1/68.--राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित निरीक्षक/(अनुसचिव/आशुलिपिक) को नियमित पदोन्नति पर केओसुब में सहायक कमांडेंट/जेएओ के पद

श्री सत्यवीर सिंह को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 12.10.2006 (अपराह) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

सं. प्रशासन का. आ.-44.--इस कार्यालय के व. ले. प. अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री श्रीराम की दिनांक 20.09.2006 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनका नाम इस कार्यालय की सूची से दिनांक 21.09.2006 (पूर्वाह) से हटा दिया गया है।

उनकी जन्म तिथि 03.06.1951 है। वे इस कार्यालय में दिनांक 20.10.1972 को भर्ती हुए थे।

ह./- अपठनीय  
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.) जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 05 अक्टूबर 2006

सं. प्रशा.-I/ले.व.ह./एस-I/2006-07/1371.--महालेखाकार महोदय ने निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को स्थानापन्न रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में 05.10.2006 से प्रभावी अथवा जिस तिथि से वे मुख्य कार्यालय में या शाखा कार्यालय में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं जो भी बाद में घटे, के रूप में पदोन्नत करने की अनुकम्पा की है:--

क्रमांक	नाम	जन्म-तिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान	टिप्पणी
1.	श्री मोहम्मद फारूक	14.02.1957	मुख्य कार्यालय श्रीनगर	---
2.	श्रीमति रमन जलाली	10.08.1954	शाखा कार्यालय जम्मू	---

पदोन्नत अधिकारी अपनी पदोन्नति की तिथि से लेकर एक मास के भीतर नियमानुसार अपने वेतन उच्च संवर्ग में नियत करवाने के लिए विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी ऊंचे पद का कार्यभार क्रमानुसार मुख्य कार्यालय, श्रीनगर और शाखा कार्यालय जम्मू में संभालेंगे।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (ले. व. ह.)

सं. प्रशा.-I/ले. व. ह./एस-I/2006-07/1381.--महालेखाकार द्वारा श्री चमन लाल कौल, सहायक लेखा अधिकारी (जन्म तिथि 25.01.1955) को "ठीक निचला नियम" के अन्तर्गत स्थानापन्न रूप

में 05.10.2006 से रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी उसके उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर अपने वेतन नियतन का विकल्प देंगे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (ले. व. ह.)

सं. प्रशा.-I/ले. व. ह./एस-I/2006-07/1390.--महालेखाकार द्वारा श्री अवतार कृष्ण पण्डिता, सहायक लेखा अधिकारी (जन्म तिथि 19.01.1955) को "ठीक निचला नियम" के अन्तर्गत 05.10.2006 से स्थानापन्न रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी उसके उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर अपने वेतन नियतन का विकल्प देंगे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (ले. व. ह.)

सं. प्रशा.-I/ले.व.ह./एस-I/2006-07/1399.--महालेखाकार द्वारा निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी 05.10.2006 से अथवा उनके उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, स्थानापन्न रूप में रुपये 7,450-225-11,500/- (समूह 'ख' राजपत्रित) के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किये जाते हैं:--

क्रमांक	नाम	जन्म-तिथि	वर्तमान कार्य नियुक्ति	टिप्पणी
1.	श्री रविन्द्र कुमार रैना	29.05.1961	मुख्यालय, श्रीनगर	---
2.	श्री राजनाथ कौल	10.04.1964	शाखा कार्यालय जम्मू	---

इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी उनके उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर अपने वेतन नियतन का विकल्प देंगे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (ले. व. ह.)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल  
कोलकाता-700001, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. प्रशासन-III/पैन/5-2/खंड-VI/305.--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री देबा प्रसाद मुखोपाध्याय, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यव्रत वसाक

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.09.2006 (अपराह्न) से प्रभावी वार्षिक पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

बी. के. मुखर्जी  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 25 सितम्बर 2006

सं. प्रशा.-I/1366-II/2006-2007/798.--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने श्री ननी गोपाल दास, लेखा अधिकारी को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतर फंक्शनल ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रोन्नति दी है।

प्रोन्नति होने पर उनका वेतन एफ.आर. 22 I(क)(i) के अधीन निर्धारित होगा। अतः इसके लिए वह इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

(प्राधिकार: म. ले. के दिनांक 29.08.2006 का आदेश)

बी. के. मुखर्जी  
उप महालेखाकार (प्रशा. I)

कोलकाता, दिनांक 13 अक्टूबर 2006

सं. डब्ल्यू.एम.-I/क्यू-55/जी/खंड-I/3343-3345.--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में दिनांक 01.10.2006 अथवा प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से जो भी बाद में हो वर्तमान डिविजन उनके नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

क्रमांक नाम

1. श्री प्रकाश कुमार बोस

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22(I)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

क. सेन  
उप महालेखाकार (लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.-I/क्यू-73/जी/खंड-IV/3367-69.--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा

अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन उनके नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

क्रमांक नाम

1. श्री गौर चन्द्र आदक

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर. 22(I)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

क. सेन  
उप महालेखाकार (लेखा)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 23 अक्टूबर 2006

सं. पीडी/6(1)/2006-आर-III/2006/10024.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री गणेश पांडुरंग, पंजारी, वरिष्ठ लिपिक, डीपीएस, मुंबई को दिनांक 09.10.2006 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में जीएसओ, भापअ केन्द्र, तारापुर में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/11(2)/2006-आर-III/2006/10029.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री आर चंद्रसेकरन, सहायक लेखा अधिकारी, को दिनांक 17.08.2006 (पूर्वाह्न) से 29.09.2006 (अपराह्न), तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/11(2)/2006-आर-III/2006/10030.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एस. डी. माढ़ेकर, सहायक लेखाकार को दिनांक 17.08.2006 (पूर्वाह्न) से 29.09.2006 (अपराह्न), तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

## परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. 1/6(3)/2005-पावर/843.--राष्ट्रपति, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को, उनके सामने उल्लिखित ग्रेडों तथा निम्न विवरणानुसार भावी आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान	यूनिट	से प्रभावी
1. मिस. एस. चंद्रिका	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-जी	रु. 16400-450-20000	एनपीसीआईएल मुख्यालय	01.08.06 (पूर्वाह)
2. श्री ए. हनान	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	रु. 12000-375-16500	टीएपीपी 3 एवं 4	01.02.06 (पूर्वाह)
3. श्री पी.के. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	रु. 12000-375-16500	टीएपीएस	01.02.06 (पूर्वाह)
4. श्री डी.के. हलदार	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	रु. 12000-375-16500	एनपीसीआईएल मुख्यालय	01.02.06 (पूर्वाह)
5. श्री आर.डी. जयसिंघानी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-सी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	रु. 10000-325-15200	टीएपीएस	01.02.06 (पूर्वाह)
6. श्री श्योदान सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-सी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	रु. 10000-325-15200	आरएपीएस 3 एवं 4	01.02.03 (पूर्वाह)

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके द्वारा धारित निम्न पद का कार्यभाग त्याग दिया है।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 05 अक्टूबर 2006

सं. भापअकेसु/भर्ती/2(1)/2006.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र अगले आदेश तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सुविधाएं के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 फरवरी, 2006 के पूर्वाह से इसी अनुसंधान केन्द्र सुविधाएं में 7,450-225-11,500/- रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "एस बी" के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	वर्तमान ग्रेड	प्रभाग/ अनुभाग	प.प.सं.
1	2	3	4
1. एम. रामसुब्बु	वैस/सी	कार्प	7587
2. पी. वेलालगन	वैस/सी	कार्प	7641

1	2	3	4	5
3. सीनू चन्द्रन	वैस/सी	डब्ल्यूएससीडी	9301	
4. अरूप कुमार हुडैत	कार्य/ई	कार्प	7251	

ए. वेंकटेशैया  
प्रशासनिक अधिकारी-III

## भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 23 अक्टूबर 2006

सं. भापाबो/भर्ती/1(15)-तूती/2006/1067.--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री बी. राघवन, लेखा अधिकारी भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) को दिनांक 01 सितम्बर, 2006 से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन  
प्रशासन अधिकारी

मुंबई-400094, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. भापाबो/भर्ती/4(11)/2006/1075.--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/एच को 'उत्कृष्ट वैज्ञानिक' के पद पर दिनांक 01 अगस्त, 2006 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में रु. 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	इकाई
	सर्वश्री	
1.	विलियम स्टीफन अरूलदोस कान्तैया	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)
2.	तपन कुमार हालदार	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)

उपरोक्त अधिकारियों ने दिनांक 01 अगस्त, 2006 के पूर्वाह से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. के. सैनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

## नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 23 अक्टूबर 2006

सं. नाईस/प्रशा./पें/03/05/820.--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के समूह 'क' के निम्नलिखित वैज्ञानिक

अधिकारियों/अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तारीख से, पद पर मूल हैसियत में नियुक्त करते हैं :--

क्र.	का. कू.	नाम	पुष्टि पद	पुष्टि की तारीख
1.	6120	सर्वश्री/श्रीमती/कु. देवरूपा लाहिड़ी	वैज्ञा. अधि./डी	01.10.2004
2.	6175	वरदराजन	वैज्ञा. अधि./डी	01.10.2005
3.	6183	किरण एस. गोपन	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
4.	6184	जी. किरण कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
5.	6185	संजय साहा	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
6.	6186	अम्बरीश डी. देशमुख	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
7.	6187	नवीन कुमार एस. दुबे	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
8.	6188	पी. श्रीनिवास	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
9.	6189	जी. प्रदीप कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
10.	6190	विनायक बी. देशमुख	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
11.	6191	स्वरूप आचार्य	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
12.	6192	जगदीश राम जाट	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2005
13.	6230	डी. नागराजू	वैज्ञा. अधि./डी	01.10.2005
14.	6269	डॉ. आर. सुरेश कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
15.	6273	अहमद अंसार	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006

के. एस. मूर्ति  
सहायक कार्मिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

एन. एच. 4, फरीदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 2006

सं. 3-1576/06-इंजी. स्था./448.--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से श्री प्रदीप कुमार प्रदीदा को दिनांक 01.09.2006 (पूर्वाह) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह-ख) (राजपत्रित) नए वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस. के. सिन्हा  
निदेशक (प्रशा.)

फरीदाबाद, दिनांक 28 सितम्बर 2006

सं. 3-1578/06-अनु. स्था.-6235--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह, ख) की सिफारिशों पर श्री ओ. पी. आहूजा को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर निजी सचिव, सा.सि.से. (समूह ख) (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में अस्थाई आधार पर 31.5.2006 के (पूर्वाह) से पदोन्नत किया जाता है।

वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम अधिकारी ने अगर अनिवार्य समझा तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

सन्तोष कुमार सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स गंगोत्री सेविंग  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी/560(3)/11651/2133--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गंगोत्री सेविंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी/560 (5)/2137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	21457	मैसर्स हयात एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
2.	23199	मैसर्स के. आर. डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
3.	14197	मैसर्स टास्क रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	10837	मैसर्स पिंगल प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
5.	24004	मैसर्स एच. पी. एण्ड एल. पी.जी. गैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
6.	6993	मैसर्स तुलसी आटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	3588	मैसर्स आगरा फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड

1	2	3
8.	22627	मैसर्स कैलाशपति हायर परचेज (इण्डिया) लिमिटेड
9.	18240	मैसर्स डी. के. अग्रवाल इन्वेस्टमेंट लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
10.	20652	मैसर्स एक्टिव कैपिटल एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
11.	11207	मैसर्स इनब्रिड फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	12828	मैसर्स चन्दानी इनजक्वो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
13.	8828	मैसर्स जेनपैक कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	3506	मैसर्स जे. एस. भसीन एण्ड संस एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	13925	मैसर्स श्रीद्वारकाधोश इन्वेस्टमेंट एण्ड हायर परचेज कम्पनी लिमिटेड
16.	19693	मैसर्स एक्जीक्यूटिव कामर्शियल एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
17.	24075	मैसर्स बजरंग फ्रेट एण्ड मूव्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	11829	मैसर्स नन्दा मेटल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	18511	मैसर्स नीलाम्बुज इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
20.	12238	मैसर्स श्री परशुरामजी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	10378	मैसर्स आनन्द फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	18145	मैसर्स वरदान इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
23.	14226	मैसर्स डी. के. सेक्यूरिटीज फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	22567	मैसर्स सिंघल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	5497	मैसर्स घई आइसक्रीम प्राईवेट लिमिटेड
26.	7792	मैसर्स सूर्या जुपिटर टी. वी. प्राईवेट लिमिटेड
27.	23927	मैसर्स मित्तल मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
28.	16274	मैसर्स एम. एल. टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड
29.	18859	मैसर्स सिंघल सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	16921	मैसर्स सार्क म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड
31.	22936	मैसर्स अचल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	12678	मैसर्स रूबी सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	20557	मैसर्स जी. के. किंगसवे आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी/560 (5)/2140--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	28696	मैसर्स गुलशन प्लास्टो पैक प्राईवेट लिमिटेड
2.	29322	मैसर्स गुलशन पेपर पैक प्राईवेट लिमिटेड
3.	9740	मैसर्स अनाशक्ति मोटर फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
4.	12707	मैसर्स एनकोर कम्प्यूनीकेशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	4541	मैसर्स किशन मोटर फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
6.	19496	मैसर्स सुभम कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	24866	मैसर्स प्रधान्य कास्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	11946	मैसर्स सरला वायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
9.	5565	मैसर्स मोतीलाल एण्ड कम्पनी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	10072	मैसर्स नील ग्रीव फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
11.	7597	मैसर्स तिसू किराना प्राईवेट लिमिटेड
12.	13474	मैसर्स टाइट सेक्यूरिटी गार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	9690	मैसर्स भावशील सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	7264	मैसर्स सिटीजन स्टील एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	12499	मैसर्स ब्ल्यू बेल इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	19612	मैसर्स बिट्टू फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	10847	मैसर्स मवाना टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	21232	मैसर्स महेश्वरी फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
19.	16887	मैसर्स मोहनी मोहन संस प्राईवेट लिमिटेड
20.	20442	मैसर्स मीनाक्षी कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
21.	8374	मैसर्स के. के. एग्रो आयल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	13239	मैसर्स हिमालय कम्बाइंड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	13971	मैसर्स अब्दुल्ला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
24.	22482	मैसर्स मोहित ट्वायज प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
25.	17461	मैसर्स कम्प्रीहेंसिव कम्प्यूटर सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
26.	15104	मैसर्स रोहताश स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	13186	मैसर्स द्विवेदी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
28.	16110	मैसर्स कृष्ण डुबेको मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	25914	मैसर्स मारकन्डे एलोय इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	11714	मैसर्स चारू कंस्ट्रक्शंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
31.	13970	मैसर्स अब्दुल्ला पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	21759	मैसर्स श्री स्टार लाइन्स प्लान्टेशन एण्ड रिजोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
33.	7299	मैसर्स साहू लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
34.	10931	मैसर्स शारदा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
35.	13550	मैसर्स सरोजनी हास्पिटल एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	18890	मैसर्स हिन्डन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित  
कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560 (5)/2141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	11662	मैसर्स सारा सोप्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	26312	मैसर्स कालिका इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
3.	7716	मैसर्स नेप्चुन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	19271	मैसर्स पूजा कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	5842	मैसर्स हर्ष एग्रो इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	22467	मैसर्स जय श्री नाथ प्लास्ट मोल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	24308	मैसर्स एस. ए. एडबिल प्रोसेसर प्राईवेट लिमिटेड
8.	26312	मैसर्स कान्टेक्ट सिन प्राईवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स सालिगराम फूड एण्ड एलाइड  
इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/5503/2142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सालिगराम फूड एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स इसको प्लास्टिक्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/5665/2144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इसको प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स इण्डो एस्ट्रा ड्रग फार्मूलेशन  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/28983/2146--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इण्डो एस्ट्रा ड्रग

फार्मूलेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स जतूरी फाइनेंस कम्पनी  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/20645/2148--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जतूरी फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स मारीअन टेक्स केम  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/9876/2150--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मारीअन टेक्स केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स घोष मल्टीपलिसटी  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/28035/2152--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स घोष मल्टीपलिसटी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी

के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स ए. एम. एस. हेल्थ केयर  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/17845/2154--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. एम. एस. हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित  
कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(5)/2161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	24666	मैसर्स प्रीक्योर मर्केन्टाइल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	10563	मैसर्स ए-वन सिप्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	18293	मैसर्स देवश्रुति स्पनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	21267	मैसर्स यशतेज फिनलीज लिमिटेड
5.	18632	मैसर्स बृजवासी म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड
6.	22305	मैसर्स शाहू धन लक्ष्मी फ्लोरीकल्चर लिमिटेड
7.	17737	मैसर्स कृष्णा हरि आडियो विजुअल प्राईवेट लिमिटेड
8.	22680	मैसर्स डोर स्टेप मर्केन्टाइल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
9.	17965	मैसर्स क्रांति एग्रो टेक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
10.	4728	मैसर्स हिन्दन सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	22772	मैसर्स जेब्रा फाइनेंस लिमिटेड
12.	10632	मैसर्स वीरांगना कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	21247	मैसर्स काशी पटल गंगा कामर्शियल क्रेडिट लिमिटेड
14.	17658	मैसर्स वाइटल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	17088	मैसर्स राजरतन लाल मोती लाल गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
16.	4826	मैसर्स श्री हरि पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	21887	मैसर्स डिजिटल आई कम्प्यूटेक सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
18.	3142	मैसर्स मन्मूलाल रामनरायण (परफ्यूम्स) प्राईवेट लिमिटेड
19.	15116	मैसर्स मोडेस्ट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	20810	मैसर्स जावित्री हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
21.	21227	मैसर्स राजवंशी फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज

कम्पनी रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित  
कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी/560 (5)/2162--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
सं.		
1	2	3
1.	22858	मैसर्स रूपाली ट्रांसफार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	11784	मैसर्स कामर्शियल डाय प्रोसेसर प्राईवेट लिमिटेड
3.	10531	मैसर्स मातादीन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	17093	मैसर्स मिलो फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	4144	मैसर्स हनी कोम्ब प्राईवेट लिमिटेड
6.	8520	मैसर्स विक्रम इको-सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	20300	मैसर्स गनपति हाइब्रिड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	21601	मैसर्स फेलो पावर ट्रानिक्स लिमिटेड
9.	14922	मैसर्स परमो मार्केटियर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	3585	मैसर्स न्यू ऐज स्टील एण्ड एलाइड इण्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
11.	5296	मैसर्स दून लैण्ड एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
12.	12995	मैसर्स उमा शंकर इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	20888	मैसर्स इशान फिनलीज लिमिटेड
14.	24135	मैसर्स स्टार लिंगर्स (एशिया) प्राईवेट लिमिटेड
15.	24087	मैसर्स स्टार लिंगर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
16.	15013	मैसर्स नजीबाबाद एडवर्टाइजमेंट एण्ड मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
17.	24729	मैसर्स माइक आनलाइन लिमिटेड
18.	13594	मैसर्स मां एयर गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
19.	7696	मैसर्स गोरखपुर फार्म्स एण्ड हेचरीज प्राईवेट लिमिटेड
20.	16422	मैसर्स जय अम्बे म्यूचुअल बेनीफिट लिमिटेड
21.	11560	मैसर्स नन्द होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	18652	मैसर्स धन प्रकाश एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
23.	7781	मैसर्स जसराज फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	5402	मैसर्स वारसी स्वदेशी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
25.	8425	मैसर्स सम्राट टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड
26.	17882	मैसर्स इस्टर्न शूज प्राईवेट लिमिटेड
27.	17758	मैसर्स बुन्देलखंड ग्रेनाइट्स लिमिटेड
28.	16939	मैसर्स सुहानी लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	12536	मैसर्स तायल मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज

कम्पनी रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स हंस इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. एल.सी./560(3)/3251/2164--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हंस इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स मणिभद्रा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/14889/1709--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स मणिभद्रा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नियामत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12709/1713--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नियामत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाजी ननुजी सिसोदिया मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/6060/1717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स हाजी ननुजी सिसोदिया मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेनगार्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/14761/1721--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स वेनगार्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री भोजी कोल्ड स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/15734/1725--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स श्री भोजी कोल्ड स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न ही किये गये तो काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिंक पर्ल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/15846/1729--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्दु सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्तूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3/6405/1757--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इन्दु सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेमाणी जैम प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्तूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/1888/1769--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टेमाणी जैम प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुपम प्रकाशन मन्दिर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्तूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/1320/1761--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अनुपम प्रकाशन मन्दिर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रघुश्री विपनिका प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्तूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/1321/1773--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रघुश्री विपनिका प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिलवर लेक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्तूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12208/1765--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सिलवर लेक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओरजो वेटेरिनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्तूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/2927/1777--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ओजो वेटेरिनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पारस एन्टरप्राइजेज  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3125/1781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पारस एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. भीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान वायर्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/1450/1793--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राजस्थान वायर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. भीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कमल प्रकाशन मन्दिर  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/1322/1785--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कमल प्रकाशन मन्दिर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. भीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अक्षय पेपर एण्ड मार्बल्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/10519/1797--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अक्षय पेपर एण्ड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. भीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. टी. एन्टरप्राइजेज  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/2581/1789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जी. टी. एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. भीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनाली एस्टेट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12842/1801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सनाली एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. भीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गीता पॉली पैक  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/11469/1821--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स गीता पॉली पैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजीव टैक्सफेब  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/16737/1833--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राजीव टैक्सफेब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोनालिसा फूड स्पेसियेलिटिज  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12354/1825--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मोनालिसा फूड स्पेसियेलिटिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शालिग्राम मार्केटिंग  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/16222/1837--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शालिग्राम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लासिक एक्वा मिनरल्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12089/1829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स क्लासिक एक्वा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. के. पाईप्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/14893/1841--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स के. के. पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीलोज्ज्वल फाईनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3/7697/1845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नीलोज्ज्वल फाईनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विराम एग्रो डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/10967/1857--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स विराम एग्रो डवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अजन्ता माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3/7079/1849--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अजन्ता माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चमत्कार फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12665/1861--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स चमत्कार फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाईनेस्टी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3/8473/1853--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डाईनेस्टी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स युगल ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/12769/1865--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स युगल ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 4th October 2006

No. A-19017/08/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Shri Premakumaren V. K., a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Science & Technology, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the afternoon of 29th September, 2006 to 31st December 2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 5th October 2006

No. A-19014/14/2006-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Nuruddin Ansari, (IRPS : 93) as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on central deputation for a period of four years w.e.f. the forenoon of 5th October, 2006 or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 9th October 2006

No. A-19014/13/2006-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Richh Pal, CSS (D. O. B. 10.10.1949), as Deputy Secretary on ad hoc basis in Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 29th September, 2006 until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS;

- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of DOP&Trg Order No. 4/2/2006-CS. I (Pt.) dated 20th September, 2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/9/2000-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Singh, CSS (D. O. B. 05.07.1962), presently working as Under Secretary in UPSC, as Deputy Secretary on ad hoc basis in Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 20th September, 2006 until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of DOP&Trg Order No. 4/2/2006-CS. I (Pt.) dated 20th September, 2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 12th October 2006

No. A-19014/4/2003-Admn. I.—On having been approved for appointment to the post of Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Shri Manoj Pandey, IRS (IT : 92), presently on compulsory wait with UPSC, stands relieved from the Office of UPSC with effect from the afternoon of 12th October, 2006 with the directions to report to Ministry of Finance (Department of Expenditure) to take up his new assignment.

2. This issues in pursuance of Office of the Establishment Officer, Department of Personnel & Training's OM No. 18/14/2006-EO (MM-I) dated 9th October, 2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 20th October 2006

No. A-19014/16/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 5/8/2006-CS. I (Desk) (Pt III) dated 25th September, 2006, the President is pleased to appoint Shri Basab Sengupta (D.O.B. 01.07.1962) (CSL NO. 5429), a regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Urban Development to the Grade I (Under

Secretary) of CSS on purely ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 12th October, 2006 (Forenoon) until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

#### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110 023, the 23rd October 2006

No. 2/1/06-Admn./38273.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Ashok Kumar (IRPS : 92), as Deputy Secretary level Commissioner for Departmental Inquiry (CDI) in the Commission on Central deputation in the pay scale of Rs. 12,000-75-16,500/- with effect from the forenoon of 29.09.2006 for a period of four years or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 18th October 2006

No. P. VII-4/2006-Pers.-3.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation, Shri C. M. Devasia (IRLA : 5236) of O/o DIGP, CRPF, Bhubaneswar, has relinquished charge of the post of Administrative/Section Officer in the after noon of 30.09.2006.

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIGP (Pers.-III)

#### BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110 003, the 23rd October 2006

No. 3/11/2002-Admn. I.—The deputation period of Shri L. Ravi Kumar, IPS (UP : 95), Principal, Central Detective Training School, Hyderabad is hereby extended for a period of one year beyond 19.9.2006 (A. N.)

2. This issues with the approval of Ministry of Home Affairs vide their Fax Message No. I-21015/18/2006-IPS. IV dated 20th October, 2006.

A. K. SOOD  
Asstt. Director (Admn.)

#### DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 26th October 2006

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers. I/67.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Saxena, Deputy Commandant to the rank of Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-. He is posted at CISF Unit HTPP Kashimpur, where he has assumed the charge of Commandant in the forenoon of 23rd September, 2006.

Note :—The above promotion will be subject to the outcome of Court case CWP No. 954/2006 & CM 852/2006 filed by Shri N. K. Bhatnagar in the Hon'ble Court of Delhi.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers. I/68.—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Min/Steno) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/JAO in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Asstt. Commandant/JAO on regular basis
	S/Shri		
1.	S. S. Chauhan	ONGC, Nazira	19.08.2006
2.	T. Oraon	RSP, Rourkela	21.09.2006
3.	S. Srinivasan	Group Hqrs, Chennai	18.08.2006
4.	K. Subramaniyan	BCCL, Dhanbad	29.08.2006
5.	V. Vidyadharan	NISA, Hyderabad	25.09.2006
6.	M. M. Nandy	VPT, Vizag	18.08.2006

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

#### MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS BANK NOTE PRESS

Dewas, the 27th October 2006

No. BNP/C/44/98-I.—Smt. Padma Solanki, Sectional Officer (Accounts) is promoted to the post of Accounts

Officer (Group-B Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- on ad hoc basis for a period w.e.f. 10.10.2006 to 31.08.2007 or till the repatriation of Shri R. K. Rawal, Accounts Officer whichever is earlier.

D. V. GONDNALE  
General Manager

No. BNP/C/44/98-I.—Shri K. L. Gorya, Deputy Works Engineer Gr. I is promoted to the post of Assistant Engineer (Air Conditioning) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad hoc basis w.e.f. 17.10.2006 to 06.02.2007 or till the repatriation of Shri P. S. Uchhana, whichever is earlier.

D. V. GONDNALE  
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 26th October 2006

No. Admn. I/O. O. No.-183.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Pankaj Kumar and Shri Satyavir Singh, Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 12.10.2006 (A/N) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)  
DELHI

New Delhi-100 002, the 16th October 2006

No. Admn./O.O. No. 44.—Consequent upon the death of Sh. Shri Ram, Sr. AO on 20.9.2006 his name is struck off from the rolls of this office with effect from 21.9.2006 (FN).

His date of birth is 3.6.1951 and date of appointment in Govt. Service is 20.10.1972.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) J&K

Srinagar, the 5th October 2006

No. Admn. I/A&E/S-1/2006-07/1371.—Accountant General has been pleased to promote the following Assistant Accounts Officers to the cadre of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- (Group-B Gazetted) in an officiating capacity w.e.f. 05.10.2006 or the date on which they take over charge of higher post whichever is later.

Sl. No.	Name	Date of Birth	Present Place of Posting	Remarks
1.	Shri Mohd. Farooq	14.02.1957	Head Office, Srinagar	—
2.	Smt. Raman Jalali	10.08.1954	Branch Office, Jammu	—

The Officers so promoted shall have to exercise an option for fixation of their pay within a period of one month from the date of their taking over in the higher cadre as required under rules.

The above mentioned Officers will assume the charge of higher post in Head Office, Srinagar and Branch Office, Jammu respectively.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A & E)

No. Admn. I/A&E/S-1/06-07/1381.—Accountant General has been pleased to promote Sh. Chaman Lal Koul, Asstt. Accounts Officer (Date of Birth = 25.01.1955) to the cadre of Accounts Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity with effect from 05.10.2006 under Next Below Rule.

The Officer so promoted shall have to exercise an option for fixation of his pay within a period of one month from the date of his taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A & E)

No. Admn. I/A&E/S-1/06-07/1390.—Accountant General has been pleased to promote Sh. Autar Krishen Pandita, Asstt. Accounts Officer (Date of Birth = 19.01.1955) to the cadre of Accounts Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity with effect from 05.10.2006 under Next Below Rule.

The Officer so promoted shall have to exercise an option for fixation of his pay within a period of one month from the date of his taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A & E)

No. Admn. I/A&E/S-1/2006-07/1399.—Accountant General has been pleased to promote the following Section Officers to the cadre of Assistant Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- (Group-B Gazetted) in an

officiating capacity w.e.f. 05.10.2006 or the date on which they take over charge of higher post whichever is later :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Present Place of Posting	Remarks
1.	Shri Ravinder Kumar Raina	29.05.1961	Head Office, Srinagar	—
2.	Shri Raj Nath Koul	10.04.1964	Branch Office, Jammu	—

The Officers so promoted shall have to exercise an option for fixation of their pay within a period of one month from the date of their taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A & E)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 27th October 2006

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol. VI/304.—S/Shri Deba Prasad Mukhopadhyay, Sr. Audit Officer, & Satyabrata Basak Sr. Audit Officer, of this office retired from service on superannuation on 30.09.2006 (AN).

B. K. MUKHERJEE  
DAG (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),  
WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 25th September 2006

No. Admn. I/1366-II/2006-07/798.—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Sri Nani Gopal Das, Accounts Officer to the higher functional grade of Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date of taking over charge.

On promotion his pay will be fixed under F. R. 22(I)(a)(i) and, therefore, he may exercise his option in this regard within one month from the date of issue of this order.

(Authority : A. G's order dated 29.8.2006)

B. K. MUKHERJEE  
Dy. Accountant General (Admn.)

The 13th October 2006

No. WM-I/Q-55(G)/Vol. I/3343-3345.—Under the orders of the A. G. (A&E), W. B. the following Divisional Accounts

Officer Grade-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against him till further order(s). He will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No. Name

1. Prokash Kumar Bose

The above named officer may submit his options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

K. SAIN  
Dy. Accountant General (A/cs)

No. WM-I/Q-73(G)/Vol. IV/3367-3369.—Under the orders of the A. G. (A&E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade-II is hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present divisions/division noted against him till further order(s). He will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No. Name

1. Gour Chandra Adak

The above named officer may submit his options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as D. A. O. Grade-I for fixation of pay on promotion.

K. SAIN  
Dy. Accountant General (A/cs)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 23rd October 2006

No. PD/6 (1)/2006-R-III/2006/10024.—Controller, BARC appoints Shri Ganesh Pandurang Panjari, Senior Clerk, DPS, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in GSO, BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 9 October, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/11 (2)/2006-R-III/2006/10029.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri R. Chandrasekaran, Asstt. Accounts Officer, as Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 17.08.2006 (FN) to 29.09.2006 (AN).

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/11 (2)/2006-R-III/2006/10030.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri S. D. Madhekar, Asstt. Accountant, as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 17.08.2006 (FN) to 29.09.2006 (AN).

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 30th October 2006

No. I/6(3)/2005-Power/843.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), to the grades as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	Scale of pay (Rs.)	Unit	w.e.f.
1.	S/Shri Ms. S. Chandrika	Scientific Officer/ Engineer-F	Scientific Officer/ Engineer-G	16,400-450-20,000	NPCIL HQ	01.08.2006 (FN)
2.	A. Hannan	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	12,000-375-16,500	TAPP 3&4	01.02.2006 (FN)
3.	P. K. Gupta	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	12,000-375-16,500	TAPS	01.02.2006 (FN)
4.	D. K. Haldar	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	12,000-375-16,500	NPCIL HQ	01.02.2006 (FN)
5.	R. D. Jaisinghani	Scientific Officer/ Engineer-C	Scientific Officer/ Engineer-D	10,000-325-15,200	TAPS	01.02.2006 (FN)
6.	Sheodan Singh	Scientific Officer/ Engineer-C	Scientific Officer/ Engineer-D	10,000-325-15,200	RAPS 3 & 4	01.02.2003 (FN)

2. The above officers relinquished charge of the lower post held by them.

SHOBHA DEVIN.  
Under Secy.

Kalpakkam-603 102, the 5th October 2006

No. BARCF/Rectt./2(1)/2006.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officers of the Bhabha Atomic Research Centre Facilities as Scientific Officers/Engineers Grade "SB" in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same Research Centre Facilities with effect from the forenoon of February 1, 2006, in an

officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Division/ Section	I. C. No.
1.	M. Ramasubbu	SA/C	KARP	7587
2.	P. Velazhagan	SA/C	KARP	7641
3.	Sinu Chandran	SA/C	WSCD	9301
4.	Arup Kumar Hudait	T Man E	KARP	7251

A. VENKATESAIAH  
Admn. Officer-III

## HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 23rd October 2006

No. HWB/R/1 (15)-TUT/2006/1067.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri V. Raghavan, Accounts Officer Heavy Water Plant (Tuticorin) as Senior Accounts Officer in the same office in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- from the forenoon of 1st September, 2006 until further orders.

N. J. SIMON  
Administrative Officer

Mumbai-94, the 27th October 2006

No. HWB/R/4 (11)/2006/1075.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'H' of Heavy Water Board (Central Office) as 'Outstanding Scientist' in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- in the same office with effect from the forenoon of August 1st, 2006 in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Unit
1.	Shri William Stephen Aruldoss Kanthiah	HWB (Central Office)
2.	Shri Tapan Kumar Halder	HWB (Central Office)

The above Officers relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of August 1, 2006.

R. K. SAINI  
Chief Administrative Officer

## NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 23rd October 2006

No. NFC/ADM/PEN/03/05/820.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers belonging to Group 'A' of the Department of Atomic Energy, Nuclear Fuel Complex in a substantive capacity in the post and with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	E.C. No.	Name	Confirmed Post	Date of Confirmation
1	2	3	4	5
		S/Shri/Smt/Kum		
01.	6120	Debrupa Lahiri	SO(D)	01.10.2004
02.	6175	Varada Rajan	SO(D)	01.10.2005
03.	6183	Kiran S. Gopan	SO(C)	01.10.2005
04.	6184	G. Kiran Kumar	SO(C)	01.10.2005

1	2	3	4	5
05.	6185	S/Shri/Smt/Kum Sanjay Saha	SO(C)	01.10.2005
06.	6186	Ambarish D. Deshmukh	SO(C)	01.10.2005
07.	6187	Navin Kumar S. Dubey	SO(C)	01.10.2005
08.	6188	P. Srinivas	SO(C)	01.10.2005
09.	6189	G. Pradeep Kumar	SO(C)	01.10.2005
10.	6190	Vinayak B. Deshmukh	SO(C)	01.10.2005
11.	6191	Swarup Acharya	SO(C)	01.10.2005
12.	6192	Jagadish Ram Jat	SO(C)	01.10.2005
13.	6230	D. Nagaraju	SO(D)	01.10.2005
14.	6269	Dr. R. Suresh Kumar	SO(C)	01.10.2006
15.	6273	Ahmed Ansar	SO(C)	01.10.2006

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES  
CENTRAL GROUP WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 26th September 2006

No. 3-1576/2006-Engg. (Estt.)/6168.—On the recommendation of the U. P. S. C. Sh. Pradeep Kumar Parida is appointed to the post of Driller-in-Charge Group-B (Gazetted) in the revised pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in the Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 01.09.2006 (FN).

S. K. SINHA  
Director (Admn.)

The 28th September 2006

No. 3-1578/06-Min. Estt./6235.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B, Gazetted) (GCS) Sh. O. P. Ahuja, Stenographer Grade-I is promoted to the post of Private Secretary (Group B Gazetted) in the temporary capacity in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in Central Ground Water Board with effect from the forenoon of 31st May, 2006.

He will be on probation for a period of 2 years with effect from 31.5.2006 which can be extended by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

This issues with the approval of the competent authority.

S. K. SINHA  
Director (Admn.)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gangotri Savings Private Limited

Kanpur-208001, the 26th October 2006

No. LC/560/11651/2133.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gangotri Savings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. 560(5)/SES-03/2137.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	21457	M/s. Hayat Exporters Limited
2.	23199	M/s. K. R. Diagnostic Centre Private Limited
3.	14197	M/s. Task Rubber Products Private Limited
4.	10837	M/s. Pingal Properties Private Limited
5.	24004	M/s. HP & LPG Gas Company Private Limited
6.	6993	M/s. Tulsi Auto Works Private Limited
7.	3588	M/s. Agra Foods Products Limited
8.	22627	M/s. Kailashpati Hire Purchase (India) Limited
9.	18240	M/s. D. K. Agarwal Investment Leasing & Finance Private Limited
10.	20652	M/s. Active Capital & Credit Private Limited
11.	11207	M/s. Envird Fuels Private Limited
12.	12828	M/s. Chandani Injectoplast Private Limited
13.	8828	M/s. Genpak Consultants Private Limited

1	2	3
14.	3506	M/s. J. S. Bhasin & Sons Agencies Private Limited
15.	13925	M/s. Shree Dwarikadheesh Investment & Hire Purchase Co. Limited
16.	19693	M/s. Executive Commercial and Credit Private Limited
17.	24075	M/s. Bajrang Freigh & Movers Private Limited
18.	11829	M/s. Nanda Metal Industries Private Limited
19.	18511	M/s. Neelambuj Investment & Finance Co. Private Limited
20.	12238	M/s. Shri Parusramji Investment & Finance Co. Private Limited
21.	10378	M/s. Anand Forgings Private Limited
22.	18145	M/s. Vardan Investment & Finance Private Limited
23.	14226	M/s. D. K. Securities Forins Private Limited
24.	22567	M/s. Singhal Farms Private Limited
25.	5497	M/s. Ghai Ice Cream Private Limited
26.	7792	M/s. Surya Jupiter T. V. Private Limited
27.	23927	M/s. Mittal Mercantile Private Limited
28.	16274	M/s. M. L. Textile Private Limited
29.	18859	M/s. Singhal Seeds Private Limited
30.	16921	M/s. SARC Mutual Benefits Limited
31.	22936	M/s. Achal Foods Private Limited
32.	12678	M/s. Ruby Seeds Private Limited
33.	20557	M/s. G. K. Kingsway Automobiles Private Limited

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. 560(5)/SES-03/2140.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day



been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	28696	M/s. Gulshan Plasto Pack Private Limited
2.	29322	M/s. Gulshan Papier Pack Private Limited
3.	9740	M/s. Anashakti Motor Finance Private Limited
4.	12707	M/s. Encore Communications Private Limited
5.	4541	M/s. Kishan Motor Finance Private Limited
6.	19496	M/s. Subham Computer Services Private Limited
7.	24866	M/s. Pradanya Cosmetics Private Limited
8.	11946	M/s. Sarlawire Industries Private Limited
9.	5565	M/s. Motilal & Company Builders Private Limited
10.	10072	M/s. Neel Greev Pharmaceuticals Private Limited
11.	7597	M/s. Trishu Kirana Private Limited
12.	13474	M/s. Tight Security Guards Private Limited
13.	9690	M/s. Bhavsheel Sales Private Limited
14.	7264	M/s. Citizen Steel & Tubes Private Limited
15.	12499	M/s. Blu Bell Instruments Private Limited
16.	19612	M/s. Bittu Finance Company Private Limited
17.	10847	M/s. Mawana Textiles Private Limited
18.	21232	M/s. Mateshwari Finance Private Limited
19.	16887	M/s. Mohini Mohan Sons Private Limited
20.	20442	M/s. Minkashi Castings Private Limited
21.	8374	M/s. K. K. Agroils Private Limited
22.	13239	M/s. Himalaya Combines Services Private Limited
23.	13971	M/s. Abdullah Ispat Private Limited
24.	22482	M/s. Mohit Toys Private Limited
25.	17461	M/s. Comprehensive Computer Solutions Private Limited
26.	15104	M/s. Rohtas Steels Private Limited

1	2	3
27.	13186	M/s. Dwivedi Hire Purchase Private Limited
28.	16110	M/s. Krishna Tobacco Manufacturing Co. Private Limited
29.	25914	M/s. Markande Alloy Industries Private Limited
30.	11714	M/s. Charu Constructions Company Private Limited
31.	13970	M/s. Abdullah Papers Mills Private Limited
32.	21759	M/s. Three Star Lines Plantation & Resorts (India) Limited
33.	7299	M/s. Sahu Leasing Private Limited
34.	10931	M/s. Sharda Cold Storage Private Limited
35.	13550	M/s. Sarojini Hospital & Hotels Private Limited
36.	18890	M/s. Hindon Impex Private Limited

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. 560(5)/SES-03/2141—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	11662	M/s. Sara Soaps Private Limited
2.	26312	M/s. Kalika Ispat Udyog Private Limited
3.	7716	M/s. Neptune Electronics Private Limited
4.	19271	M/s. Pooja Colonizers Private Limited
5.	5842	M/s. Harsh Agro Engineering Private Limited
6.	22467	M/s. Jai Shri Nath Plast Moulders Private Limited

1	2	3
7.	24308	M/s. S. A. Edible Processors Private Limited
8.	26312	M/s. Contact Sync Private Limited

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saligram Food & Allied Industries Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/5503/2142.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saligram Food & Allied Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essco Plastics Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/5665/2144.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Essco Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indo Astra Drug Formulation Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/28983/2146.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indo Astra Drug Formulation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaturi Finance Company Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/20645/2148.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaturi Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marian Tex Chem Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/9876/2150.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marian Tex Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ghosh Multiplicite Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/28035/2152.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ghosh Multiplicite Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. M. S. Health Care Private Limited

Kanpur-208001, the 27th October 2006

No. LC/560(3)/17845/2154.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. M. S. Health Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Kanpur-208001, the 30th October 2006

No. 560(5)/2161—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	24666	M/s. Precure Mercantile Services Limited
2.	10563	M/s. A. One Springs Private Limited
3.	18293	M/s. Davrishi Spinning Mills Private Limited
4.	21267	M/s. Yestaj Finlease Limited
5.	18632	M/s. Brijwasi Mutual Benefits Limited
6.	22305	M/s. Sahu Dhan Laxmi Floriculture Limited
7.	17737	M/s. Krishna Hari Audio Visual Private Limited
8.	22680	M/s. Doorsteps Merchantile Services Private Limited
9.	17965	M/s. Krati Agro Tech Industries Private Limited
10.	4728	M/s. Hindon Ceramics Private Limited
11.	22772	M/s. Jebra Finance Limited
12.	10632	M/s. Veerangana Constructions Private Limited
13.	21247	M/s. Kashi Patal Ganga Commercial Credit Limited
14.	17658	M/s. Vital Agencies Private Limited
15.	17088	M/s. Rajratan Lal Moti Lal Gases Private Limited

1	2	3
16.	4826	M/s. Shree Hari Paper Mills Private Limited
17.	21887	M/s. Digital Eye Computech System Private Limited
18.	3142	M/s. Manaunlal Ramnarain (Perfumes) Private Limited
19.	15116	M/s. Modest Consultants Private Limited
20.	20810	M/s. Javitri Hospital Private Limited
21.	21227	M/s. Rajvanshi Pharmaceuticals Private Limited

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Kanpur-208001, the 30th October 2006

No. 560(5)/2162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	22858	M/s. Rupali Transformers Private Limited
2.	11784	M/s. Commercial Data Processors Private Limited
3.	10531	M/s. Matadin Investments Private Limited
4.	17093	M/s. Melo Pharmaceuticals Private Limited
5.	4144	M/s. Honey Comb Private Limited
6.	8520	M/s. Vikram Eco-systems Private Limited
7.	20300	M/s. Ganpati Hybrid Farms Private Limited
8.	21601	M/s. Fellow Powertronics Limited
9.	14922	M/s. Permoo Marketeers Private Limited
10.	3585	M/s. New Age Steel & Allied Industry Private Limited
11.	5296	M/s. Doon Land & Finance Private Limited
12.	12995	M/s. Uma Shankar Investment Consultants Private Limited
13.	20888	M/s. Eshan Finlease Limited
14.	24135	M/s. Star Lingers (Asia) Private Limited
15.	24087	M/s. Star Linger (India) Private Limited
16.	15013	M/s. Najibhabda Advertisement & Marketing Services Private Limited
17.	24729	M/s. Mic Online Limited

1	2	3
18.	13594	M/s. Maa Air Gases Private Limited
19.	7696	M/s. Gorakhpur Farms & Hatcheries Private Limited
20.	16422	M/s. Jayambey Mutual Benefits Limited
21.	11560	M/s. Nand Hotels Private Limited
22.	18652	M/s. Dhan Prakash Agro Products Limited
23.	7781	M/s. Jasraj Fiheries Private Limited
24.	5402	M/s. Warsi Swadeshi Cold Storage & Ice Factory Private Limited
25.	8425	M/s. Samrat Textile Private Limited
26.	17882	M/s. Eastern Shoes Private Limited
27.	17758	M/s. Bundelkhand Granites Limited
28.	16969	M/s. Suhani Leasing & Finance Co. Private Limited
29.	12536	M/s. Tayal Motors Private Limited

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hans Engineering Works Private Limited

Kanpur-208001, the 30th October 2006

No. LC/560(3)/3251/2164.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hans Engineering Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manibhadra Marketing Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/14889/1709—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Manibhadra Marketing

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Niyamat Minerals Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12709/1713—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Niyamat Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haji Nawaji Sisodiya Marbles Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/6060/1717—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Haji Nawaji Sisodiya Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanguard Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/14761/1721—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vanguard Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Moji Cold Stores Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/15734/1725—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shree Moji Cold Stores Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pink Pearl Hotels Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/15846/1729—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Pink Pearl Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skyage Publicity Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/14695/1733—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Skyage Publicity Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anuj Electrowell Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/14590/1737—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Anuj Electrowell Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dimex Infosys Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/16192/1741—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Dimex Infosys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Baba Ka Dhaba Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/16583/1745—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Baba Ka Dhaba Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanwara Consultancy Services Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/16683/1749—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sanwara Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Glaze Stones Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/3287/1753—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Glaze Stones Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indu Cements Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/6405/1757—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Indu Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anupam Prakashan Mandir Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/1320/1761—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Anupam Prakashan Mandir Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Silver Lake Resorts Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12208/1765—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Silver Lake Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Temani Gem Processors Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/1888/1769—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Temani Gem Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raghu Shri Vipanika Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/1321/1773—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Raghu Shri Vipanika Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Orjo Veterinary Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/2927/1777—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Orjo Veterinary Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paras Enterprises Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/3125/1781—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Paras Enterprises

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kamal Prakashan Mandir Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/1322/1785—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kamal Prakashan Mandir Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. T. Enterprises Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/2581/1789—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. G. T. Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajasthan Wires Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/1450/1793—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajasthan Wires Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akshay Paper & Marbles Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/10519/1797—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Akshay Paper and Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanali Estate Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12842/1801—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sanali Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gita Poly Pack Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/11469/1821—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Gita Poly Pack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Monasisa Food Specialities Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12354/1825—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Monasisa Food Specialities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Classic Acqua Minerals Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12089/1829—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Classic Acqua Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajeev Texfab Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/16737/1837—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajeev Texfab Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shaligram Marketing Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/16222/1837—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shaligram Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. K. Pipes Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/14893/1841—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. K. K. Pipes Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neelojjwal Finance Co. Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/7697/1845—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Neelojjwal Finance Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ajnta Mines and Minerals Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/7079/1849—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ajnta Mines and Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dynasty Exports Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/8473/1853—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Dynasty Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Viram Agro Development Company Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/10967/1857—Notice is hereby given in  
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies  
Act, 1956 that at after expiry of three months from the date  
hereof the name of the Company M/s. Viram Agro  
Development Company Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chamatkar Farms Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12665/1861—Notice is hereby given in  
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies  
Act, 1956 that at after expiry of three months from the date

hereof the name of the Company M/s. Chamatkar Farms  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yugal Transport Private Limited

Jaipur, the 26th October 2006

No. ROC/JPR/560/12769/1865—Notice is hereby given in  
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies  
Act, 1956 that at after expiry of three months from the date  
hereof the name of the Company M/s. Yugal Transport  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan